



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 32]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 19, 1982/माघ 30, 1903

No. 32]

NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 19, 1982/MAGHA 30, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना सं. 5-ईटोसी (पीएन)/82

नई दिल्ली, 19 फरवरी, 1982

निर्यात व्यापार नियंत्रण

विषय.—1981-82 के दौरान प्याज की निर्यात नीति से संबंधित क्रिया-विधि ।

मिसिल संख्या 7(2)/81-ई-2.—1981-82 के लिए निर्यात नीति के नीति विवरण के पृष्ठ 12 पर की क्रम सं. 16(1) की ओर ध्यान दिलाया जाता है जिसके अनुसार प्याज का निर्यात भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारिता विपणन महामंडल लि. (नेफेड) के माध्यम से सारणीबद्ध है ।

2. अब यह निश्चय किया गया है कि नेफेड न्यूनतम निर्यात कीमत का निर्धारण करने के साथ-साथ प्याज के निर्यातों के पंजीकरण का और अनुश्रवण करने के लिए अभिकरण होगा । प्याज का निर्यात मलेशिया और सिंगापुर से भिन्न गंतव्य स्थानों को करने के लिए निम्नलिखित क्रियाविधि अपनाई जाएगी :—

(क) प्याज के निर्यात की अनुमति उन निर्यातकों के माध्यम से सीमित उच्चतम सीमा के भीतर पहले आए सो पहले पाए के आधार पर 31 मार्च, 1982 तक दी जाएगी जिन्होंने ऐसी दर पर आदेश बूक करा लिए हों जो नेफेड द्वारा निर्धारित न्यूनतम

निर्यात कीमत से कम न हो और अपनी निर्यातों नेफेड के पास पंजीकृत करा ली हों । पहले आए सो पहले पाए के आधार पर कोटे का आबंटन करते समय, निजी पार्टियों के बजाय सहकारिता समितियों को अधिमान्यता दी जाएगी ।

(ख) निर्यात निर्यात नेफेड के पास निर्यात पंजीकरण होने की तारीख से 14 दिनों के भीतर अपरिवर्तनीय साख पत्र द्वारा समर्थित होनी चाहिए । यदि वैध अपरिवर्तनीय साख पत्र निर्धारित अवधि के भीतर नेफेड को नहीं भेजा जाता है, तो पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा ।

(ग) नेफेड उच्चतम सीमा समाप्त होने तक निर्यात निर्यातों का पंजीकरण करना जारी रखेगा ।

(घ) नेफेड स्वयं भी निर्यात करना जारी रख सकता है ।

(ङ) न्यूनतम निर्यात कीमत का निर्धारण नेफेड के प्रबन्ध निदेशक जो उसके अध्यक्ष के रूप में है उनके साथ और वाणिज्य मंत्रालय के प्रतिनिधि और व्यापारियों के सदस्य प्रतिनिधि द्वारा गठित मूल्य सलाहकार समिति द्वारा किया जाएगा ।

(च) सलाहकार समिति द्वारा निर्धारित न्यूनतम निर्यात कीमत नेफेड द्वारा सीमा-शुल्क और निर्यातकों को

व्यापार सूचना द्वारा तत्काल ही सूचित कर दी जाएगी ।

3. नेफेड द्वारा जारी किए गए पंजीकरण प्रमाण पत्र और साख पत्र के आधार पर सीमा-शुल्क निर्यात के लिए अनुमति प्रदान करेगा वस्तु कि जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य पोतलदान की तिथि को न्यूनतम निर्यात मूल्य से कम न हो ।

4. उपर्युक्त क्रिया विधि केवल 31 मार्च, 1982 तक ही लागू रहेगी ।

मणि नारायणस्वामी, मुख्य नियंत्रक,
आयात एवं निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE
PUBLIC NOTICE No. 5-ETC(PN)/82

New Delhi, the 19th February, 1982

EXPORT TRADE CONTROL

Subject :—Export Policy of Onions during 1981-82—Procedure regarding.

F. No. 7(2)/81-E.II.—Attention is invited to S. No. 16(1) at page 12 of Policy Statement of Export Policy for 1981-82, according to which export of Onions is canalised through the National Agricultural Co-operative Marketing Federation of India Ltd., (NAFED).

2. It has now been decided that NAFED shall be the agency for registering and monitoring the exports of Onions as well as for fixation of minimum export price. The follow-

ing procedure shall be adopted for export of Onions to destinations other than Malaysia and Singapore.

- (a) Export of Onions will be allowed upto 31st March, 1982, on first-come, first-served basis within a limited ceiling through exporters who have booked orders for export at rates not lower than the minimum export price fixed by NAFED and who have registered their contracts with NAFED. While allocating quotas on the basis of first-come, first-served basis, preference will be given to Co-operative Societies over Private Parties.
- (b) The export contracts should be supported by irrevocable letter of credit within a period of 14 days from the date of registration of contracts with NAFED. In case a valid irrevocable Letter of Credit is not submitted to the NAFED within the specified period, the registration will be cancelled.
- (c) NAFED will continue to register export contracts till the ceiling is reached.
- (d) NAFED may also continue to undertake exports itself.
- (e) MEP will be determined by the Price Advisory Committee with Managing Director, NAFED as its Chairman and with a representative of the Ministry of Commerce and representative from trade as its members.
- (f) MEP fixed by the Price Advisory Committee will be intimated by NAFED immediately to Customs and to exporters by Trade Notice.

3. On the basis of the registration certificate issued by NAFED and the Letters of Credit, the Customs will allow exports provided the f.o.b. value is not less than the MEP on the date of shipment.

4. The above procedure shall be in force only upto 31st March, 1982.

MANI NARAYANASWAMI, Chief Controller of
Imports and Exports